Regd. Office: D-328, Basement Floor, Defence

Colony, New Delhi- 110024

: 011-68888824

DURGESH MERCHANTS LIMITED CIN: L65923DL1984PLC248322

Email ID Website

: durgeshmerchants@gmail.com : www.durgeshmerchantsltd.com

02nd February, 2023

To, The Executive Director, The Calcutta Stock Exchange Limited, 7, Lyons Range, Dalhousie, Kolkata-700001, West Bengal (Scrip Code: 100143)

ISIN: INE616Q01011

Subject: Newspaper Publication of notice of Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of **Durgesh Merchants Limited**

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached copy of relevant extracts of newspaper publication of notice of Extra-Ordinary General Meeting to be held on Wednesday, 08th March, 2023:

Financial Express in English language newspaper dated 02nd February, 2023; and

Jansatta in Hindi language newspaper dated 02nd February, 2023.

You are requested to take note of the same.

Thanking You,

For Durgesh Merchants Limited For Dolo Millerchants Limited

(Company Secretary and Compliance Officer) Office Add.: D-328, Basement Floor,

Defence Colony, New Delhi-110024

Enclosed: As mentioned above

ADVANCE STEEL TUBES LIMITED

CIN: L24231UP1978PLC004583 Regd. Office: Regd. Off: 45/3 INDUSTRIAL AREA, SITE-IV, SAHIBABAD. GHAZIABAD, UTTAR PRADESH, 201020 E-mail: info@advance.co.in Website: www.advance.co.in

(Amount in Crore) Quarter Year Corresponding ending ended 3months ended Particulars 1.12.2022 31.03.2022 in the previous (Audited) year 31.12.2021 41.49 106.79 25.68 1 Total Income from Operations 2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, exceptional and/ (1.18)1.23 0.86 or extraordinary items 3 Net Profit / (Loss) for the period before tax 6.15 8.15 (after exceptional and/or extraordinary items 1.23 4 Net Profit / (Loss) for the period after tax 6.15 1.46 (after exceptional and/or extraordinary items 5 Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss for the period (after tax and other comprehensive income (aftertax)] 1.46 4.91 6.67 0.74 0.74 0.74 6 Paid up equity share capital Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the Audited Balance Sheet 93.87 of previous year) 8 Earnings per share of Rs.10/- each for continuing and discontinued operations 2) Diluted

 The Audited standalone financial results of Advance Steel Tubes Limited have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 31st January 2023 and have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company.

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & other disclosure requirements) regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the stock exchange website and on the company's website www.advance.co.in E-Mail:info@advance.co.in

Sd/-D. N. Agarwal

(Managing Director) DIN:00586794

Twenty Four Only) as on 25.04.2022 along

with applicable future interest.

property before submission of bid/s.

ASSET RECOVERY BRANCH 26/28-D, Connaught Place, New Delhi-110001 (Working at M-35, First Floor, Outer Circle, Connaught Place, New Delhi – 110 001)
E-mail: arbdelhi@unionbankofindia.bank

[Rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the authorized officer of Union Bank of India, Asset Recovery Branch situated at M-35, First Floor, Outer Circle, Connaught Place, New Delhi - 110001 under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 19.09.2015 calling upon the borrower M/s V.K.Chain & Jewel Pvt Ltd. 3226/31, First Floor, Main Gali No. 31, 3202/A-1, Saraswati Marg, Karol bagh, New Delhi-110005, Mrs. Poonam Verma, W/o Late Mr.Surender Kumar Verma (In The capacity of Legal Heir of Late Mr. Surender Kumar Verma and as Guardian of minor Children, Legal Heirs of Late Mr. Surender Kumar Verma), Mr. Anil Kumar Verma S/o Sh.Vishnu Kumar Verma, Mrs Rekha Verma w/o Anil Kumar Verma, Mrs. Poonam Verma w/o Sh. Surender Kumar Verma, Mrs. Laxmi Verma w/o Sh. Vishnu Kumar Verma, Mr. Vishnu Kumar Verma S/o Sh. Ram Kishan Verma, Mrs. Laxmi Verma W/o Sh. Vishnu Kumar Verma (Mother of Late Mr. Surender Kumar Verma ,as legal heir of Late Mr.Surender kumar) all residing at R/o 53, Extension-III, Nangloi, Delhi-110041 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 21,63,03,492.50 (Rupees Twenty One Crore Sixty Three Lakhs Three Thousand Four Hundred Ninety Two and paisa Fifty only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 30th day of January 2023.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Union Bank of India, at M-35, First Floor, Outer Circle, Connaught Place, New Delhi - 110 001 for an amount Rs 21,63,03,492.50 (Rs Twenty One Crore Sixty Three Lakhs Three Thousand Four Hundred Ninety Two and paisa Fifty only) and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

in respect of time available to the borrower to redeem the secured assets.

West - Road, North - Other's property, South - Other's property

1. Property bearing All that Piece and Parcel of the Property i.e. property bearing Plot No. 117, out of khasra No.41/4/2, area measuring 50 sq. yds and the Abadi known as Nagloi Extension (West) Delhi 110041 in the name of Mrs Rekha Verma 2. Property bearing Plot No 117, (with roof/terrace rights upto sky and the land beneath the said property), land area measuring 100 sq. yds, out of Khasra No.41/4/2, situated in the revenue state of village Nangloi Jat Delhi State, Delhi and the colony/Abadi known as Nagloi Extension-III (Extension West), Nagloi, Delhi-110041' in the name of Mrs. Rekha Verma, Bounded as: EAST - Portion of property,

Date: 30-01-2023, Place: New Delhi Authorised Officer, UNION BANK OF INDIA

DEMAND NOTICE

EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LID. CIN: U67100MH2007PLC174759

Retail Central & Regd. Office: Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400098 Under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, ("The Act") read with rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

The undersigned is the Authorized Officer of the Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited ("EARC") under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. In exercise of powers conferred under the Section 13 (12) of the Act read with rule 3 of the security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorized Officer has issued a Demand Notice under section 13 (2) of The Act, calling upon the following borrower(s), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice issued to them that are also given below. In connection with above, Notice is hereby given once again, to the Borrowers to pay EARC, within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below. together with further interest as detailed in the said Demand Notice, from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said borrower(s). As security for due repayment of the

oai	n, the following asset have been mortgaલ્	ged to EARC by the said borrower(s	s) respectively.
31	Name Of The Borrower(s)/	Demand Notice	Details of the
No	Co-Borrower (s)/Loan Account Number	li .	Trust & Assignor
1	Shishupal Baghel (Borrower) along with Chandra Kanta (Co-Borrower) Loan Account	17.01.2023 & Rs. 15,66,555.38 (Rupees Fifteen Lakh Sixty-Six Thousand Five Hundred Fifty-	EARC TRUST SC - 424 & SBFC"
	No.PRÓ0421994	Five and Thirty-Eight Paisa Only) as on 05.01.2023	05.0

Description Of Property: "All That Piece And Parcel Of Property Beraing Plot No.-30-A. 30-B 30-C, Anjani Vihar, Near Nagla Kishanlal, Kh. No.-2173, Mauza, Naraich, Etmadpur, Agra, Uttai Pradesh". Bounded As Below- North- 15' Wd Rasta South- Others East: Plot No.29 West: Plot

If the said Borrowers shall fail to make payment to EARC as aforesaid, EARC shall proceed against the above secured assets under the section 13 (4) of the Act and applicable rules. entirely at the risks of the said Borrower(s) as to costs and consequences. The borrowers are prohibited under The Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of EARC. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act

Date: 01.02.2023

Place: Delhi

Edelweiss | ASSET RECONSTRUCTIO

For Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SHEEN INDIA PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS SHEEN INDIA PRIVATE LIMITED Name of corporate debtor Date of incorporation of corporate debtor Authority under which corporate debtor is ROC-Kolkata

incorporated / registered Corporate Identity No. / Limited Liability U00060DL2005PTC140771 Identification No. of corporate debtor

Address of the registered office and principal H. NO. 211 NEAR SANTHMATH SATSANG ASHRAM MAHROLI, DELHI, DL-110068, IND office (if any) of corporate debtor

Insolvency commencement date in respect of 30.01.2023 corporate debtor

Estimated date of closure of insolvency 29.07.2023 resolution process Name and registration number of the insolvency Mr. Tapan Chakraborty

professional acting as interim resolution IBBI/IPA-003/IP-N00173/2018-2019/12121 professional Address and e-mail of the interim resolution Plot No. 100/11, Rathtala, Bankpara, Barasat professional, as registered with the Board Kolkata, West Bengal-700124 tapanchakraborty2611957@gmail.com

10. Address and e-mail to be used for correspondence. Intelligent IP Management Solutions Pvt. Ltd. YMCA Building, 2nd Floor, 25 Jawaharlal Nehru with the interim resolution professional Road, Kolkata-700087 insolvency.sheenindia@gmail.com 11. Last date for submission of claims 13.02.2023

2. Classes of creditors, if any, under clause (b) of N/A sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional 13. Names of Insolvency Professionals identified to N/A

act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class) 4. (a) Relevant Forms a) https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

(b) Details of authorized representatives are Physical Address: As mentioned in entry no. 10 available at:

lotice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a orporate insolvency resolution process of the Sheen India Private Limited on 30.01.2023. he creditors of Sheen India Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 13.02.2023 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may

submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorized representative of the class [specify class] in Form CA. N/A Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name of Interim Resolution Professional: Mr. Tapan Chakraborty Date : 02.02.2023 Signature of Interim Resolution Professiona Place: Kolkata

EMA INDIA LIMITED Regd. Office: C-37, Panki Industrial Area, P.O. Udyog Nagar, Kanpur-208022, Tel: +91-512-2691210-11 Websile: www.eilld.info, E-Mail: emaindia.cs@gmail.com, CIN - L27201UP1971PLC003408

Place: Delhi

Date: 31.01.2023

NOTICE and other applicable regulations of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 10" February, 2023 inter-alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31' December, 2022.

The information contained in this notice is also available on the Company's corporate website (www.eiltd.info) and on the website of BSE Limiter (www.bseindia.com). For EMA INDIA LTD. (Namita Sabharwal Date: 01.02.2023 Place: Kanpur Company Secreta

[Pursuant TO APPLICABLE PROVISIONS: SECTION 13(3) OF THE LLP ACT, 2008, READ WITH **RULE 17 OF THE LLP RULES, 2009]** In the matter of BLACK MINING

JUNKYARD LLP (ABC-7934) having its registered office at E-169 G/F MAYAPURI PH II NEAR RAJU BODY WALA MAYA PURI NEW DELHI 110064 Notice is hereby given to the general

public that the LLP proposes to shift its registered office under section 13(3) of the LLP act, 2008, read with rule 17 of the LLP rules, 2009 in terms of the resolution passed at the meeting of the partners of M/S Black Mining Junkvard LLP held on 31" day of January, 2023 to enable the company to change its registered office from "The NCT Of Delhi" To "The State Of Haryana" Any person whose interest is likely to be

affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objection supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to Registrar Of Companies 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi - 110019 the ,within Twenty one days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant LLP at its registered office and/or at the address mentioned below:

KHASRA NO 103//14/2-15/2-16/1-17/1/1 VPO BARHANA TEHSIL BERI DISTRICT JHAJJAR PINCODE 124107 HARYANA INDIA

For and on behalf of Partners BLACK MINING JUNKYARD LLP SAVINDER SINGH SETHI Date: 02.02.2023 (PARTNER) Place: Delhi DIN:10024744



CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

Registered & Corporate Office: - 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 Circle Office: - Capri Global Capital Limited 2nd Floor, 3B Pusa Road Rajendra Place, New Delhi-110005

APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6)] Sale notice for sale of immovable properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Constructive/physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Capri Global Housing Finance Limited Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on dates below mentioned, for recovery of

	amount mentioned below due to the Capri Global Housing Finance Limited Secured Creditor from Borrower mentioned below. The reserve price, EMD amount and property details mentioned below.						
SR. NO.	` '	DESCRIPTION OF THE MORTGAGED PROPERTY	1. DATE & TIME OF E-AUCTION 2. LAST DATE OF SUBMISSION	2. EMD OF THE PROPERTY			
1.	1.Mr. Aman Preet Singh ("Borrower") 2.Mrs. Rajvinder Kaur 3.Mr. Iqbal Singh (Co-borrower) LOAN ACCOUNT No. LNHEOKH000022485 AND LNHLOKH000022150 Rupees Rs. 14,31,002/- (Rupees Fourteen Lacs Thirty One Thousand Two Only) as on 06.05.2022 along with applicable future interest.	All Piece and Parcel of Eastern Portion of Plot No. 10, area admeasuring 50 Sq Yds., Khasra No. 18/15/2, Village Goncchi, Parvatiya Colony, Tehsil Ballabhgarh, District Faridabad, Haryana. Boundaries as under :- East :- Dead end Gali West :- Vacant Plot North :- Other's Property South :- Gali 15" ft	OF EMD 3. DATE & TIME OF THE PROPERTY INSPECTION 1. E-AUCTION DATE: 06.03.2023 (Between 1:00 P.M. to 2:00 P.M. 2. LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD WITH KYC: 04.03.2023 3. DATE OF INSPECTION: 03.03.2023	3. INCREMENTAL VALUE RESERVE PRICE: Rs. 13,10,000/-Rupees Thirteen Lacs Ten Thousand Only). EARNEST MONEY DEPOSIT: Rs. 1,31,000/- (Rupees One Lac Thirty One Thousand Only) INCREMENTAL VALUE: Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand Only)			
2.	1.Mr. Mahinder Chawla ("Borrower") 2.Mrs. Annu Chawla 3.M/s Garraj Diesel Service (Co-borrower) LOAN ACCOUNT No. LNHEPRD000019512 Rupees 19,18,854/- (Rupees Nineteen Lakhs Eighteen Thousand Eight Hundred and Fifty- Four Only) as on 11.07.2022 along with applicable future interest.	All that piece and parcel of Plot No. 76/14, Area Admeasuring 63 Sq. Yds., Ward No. 25, situated in the abadi of Lal Dora, Waka Mauja Killa Mohalla, behind Tabela School, Near SDM Office, Tehsil Bahadurgarh, District Jhajjar, Haryana — 124507. Bounded as: East By: Other's Property West By: House of Sh. Birbal North By: Gali 21 Ft. Wide South By: Other's Property	1. E-AUCTION DATE: 06.03.2023 (Between 1:00 P.M. to 2:00 P.M. 2. LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD WITH KYC: 04.03.2023 3. DATE OF INSPECTION: 03.03.2023	RESERVE PRICE:) Rs. 19,55,000/-Rupees Nineteen Lacs Fifty Five Thousand Only). EARNEST MONEY DEPOSIT: Rs. 1,95,500/- (Rupees One Lac Ninety Five Thousand Five Hundred Only) INCREMENTAL VALUE: Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand Only)			
3.	1.Mr. Sunil Kumar Sharma("Borrower") 2.Mrs. Anju Sharma (Co-borrower) LOAN ACCOUNT No. LNHLGUR000013155 Rupees 9,39,080/- (Rupees Nine Lakh Thirty- Nine Thousand Eighty Only) as on 07.06.2022 along with applicable future interest.	All that piece and parcel of Flat No. D-504, Tower – D, 5th Floor, Area admeasuring 549.17 Sq. Ft. (Carpet Area) and Balcony Area of 86.20 Sq. Ft, together with D – 40 Two Wheeler open Parking site and programs of the share in common Areas POE		RESERVE PRICE:) Rs. 20,35,000/-Rupees Twenty Lacs Thirty Five Thousand Only). EARNEST MONEY DEPOSIT: Rs. 2,03,500/- (Rupees Two Lacs Three Thousand Five Hundred Only)			

rate share in common Areas, ROF 03.03.2023

Ananda, lying being and constructed

on the land admeasuring 40 Kanal 7

Marla, comprising in Khewat/Khata

No. 170/144, 171/145, 74/64, 72/62

and 76/66, Rect. No. 10 Killa No. 22,

North :- Road South :- Other's

23, 24/1, 24/2, 25/1, and Rect. No. 15 Killa No. 3/1/1, 3/1/2, 4, situated in the Revenue Estate of Village Dhorka, Sector - 95, Gurgaon, Haryana - 122001 All Piece and Parcel of admeasuring 1. E-AUCTION DATE: 06.03.2023 RESERVE PRICE: 4. 1.Mr. Mukesh Kumar("Borrower") 115 Sq Yds., Comprising of Khasra 2.Mr. Jitender Kumar No. 1164 min, Situated at NH-24, 3.Mr. Gautam Singh Village Mehrauli, Ghaziabad, Uttar 4.Mrs. Geeta Devi (Co-borrower) **Pradesh. Alongwith Construction** LOAN ACCOUNT No. LNHLKKD000012599 3. DATE OF INSPECTION: Thereon present and future Both. Rupees 24,13,624/- (Rupees Twenty Four 03.03.2023 **Boundaries as under East :- Other's** Lakh Thirteen Thousand Six Hundred and **Property West :- Other's Property**

Property

(Between 1:00 P.M. to 2:00 P.M.) Rs. 19,40,000/-Rupees Nineteen Lacs Forty Thousand Only). 2. LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD WITH KYC: **04.03.2023**

EARNEST MONEY DEPOSIT: Rs. 1,94,000/- (Rupees One Lac **Ninety Four Thousand Only)** INCREMENTAL VALUE: Rs. 10,000/-(Rupees Ten Thousand Only)

INCREMENTAL VALUE: Rs. 10,000/-

(Rupees Ten Thousand Only)

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Capri Global Housing Finance Limited Secured Creditor's website i.e. www. Capriglobal.in/auction/ **TERMS & CONDITIONS OF ONLINE E- AUCTION SALE:-**1. The Property is being sold on "AS IS WHERE IS, WHATEVER THERE & WITHOUT RECOURSE BASIS". As such sale is without any kind of warranties & indemnities.

2. Particulars of the property / assts (viz. extent & measurements specified in the E-Auction Sale Notice has been stated to the best of information of the Secured Creditor and Secured Creditor shall not be answerable for any error, misstatement or omission. Actual extant & dimensions may differ. 3.E-Auction Sale Notice issued by the Secured Creditor is an invitation to the general public to submit their bids and the same does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or nay representation on the part of the Secured Creditor. Interested bidders are advised to peruse the copies of title deeds with the Secured Creditor and to conduct own independent enquiries /due diligence about the title & present condition of the property / assets and claims / dues affecting the

4.Auction/bidding shall only be through "online electronic mode" through the website https://sarfaesi.auctiontiger.net Or Auction Tiger Mobile APP provided by the service provider M/S eProcurement Technologies Limited, Ahmedabad who shall arrange & coordinate the entire process of auction through the e-auction platform. 5. The bidders may participate in e-auction for bidding from their place of choice. Internet connectivity shall have to be ensured by bidder himself. Secured Creditor /service provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash own, power failure etc.

6. For details, help, procedure and online bidding on e-auction prospective bidders may contact the Service Provider M/S E-Procurement Technologies Ltd. Auction Tiger, Ahmedabad (Contact no. 079-68136880/68136837), Mr. Ram Kumar Mob. 8000023297. Email: ramprasad@auctiontiger.net,. 7. For participating in the e-auction sale the intending bidders should register their name at https://sarfaesi.auctiontiger.net well in advance and shall get the user id

and password. Intending bidders are advised to change only the password immediately upon receiving it from the service provider. 8. For participating in e-auction, intending bidders have to deposit a refundable EMD of 10% OF RESERVE PRICE (as mentioned above) shall be payable by interested

bidders through Demand Draft/NEFT/RTGS in favor of "Capri Global Housing Finance Limited" on or before 04-March-2023. 9. The intending bidders should submit the duly filled in Bid Form (format available on https://sarfaesi.auctiontiger.net) along with the Demand Draft remittance towards EMD in a sealed cover addressed to the Authorized Officer, Capri Global Housing Finance Limited Regional Office Plot no. 9B, 2nd Floor, Pusa Road, New

Delhi 110 060 latest by 03:00 PM on 04-March-2023. The sealed cover should be super scribed with "Bid for participating in E-Auction Sale- - in the Loan Account No. (as mentioned above) for property of "Borrower Name.". 10.After expiry of the last date of submission of bids with EMD, Authorised Officer shall examine the bids received by him and confirm the details of the qualified

bidders (who have quoted their bids over and above the reserve price and paid the specified EMD with the Secured Creditor) to the service provider M/S eProcurement Technologies Limited to enable them to allow only those bidders to participate in the online inter-se bidding /auction proceedings at the date and time mentioned in 11. Inter-se bidding among the qualified bidders shall start from the highest bid quoted by the qualified bidders. During the process of inter-se bidding, there will be

unlimited extension of "10" minutes each, i.e. the end time of e- auction shall be automatically extended by 10 Minutes each time if bid is made within 10 minutes from the last extension. 12. Bids once made shall not be cancelled or withdrawn. All bids made from the user id given to bidder will be deemed to have been made by him alone.

13.Immediately upon closure of E-Auction proceedings, the highest bidder shall confirm the final amount of bid quoted by him BY E-Mail both to the Authorised Officer, Capri Global Housing Finance Limited, Regional Office Office/Plot no. 9B, 2nd Floor, Pusa Road, New Delhi 110 060 and the Service Provider for getting declared as successful bidder in the E-Auction Sale proceedings. 14. The successful bidder shall deposit 25% of the bid amount (including EMD) on the same day of the sale, being knocked down in his favour and balance 75% of bid

amount within 15 days from the date of sale by DD/Pay order/NEFT/RTGS/Chg favouring Capri Global Housing Finance Limited. 15.In case of default in payment of above stipulated amounts by the successful bidder / auction purchaser within the stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid (including EMD) will be forfeited and the property will be again put to sale.

16.At the request of the successful bidder, the Authorised Officer in his absolute discretion may grant further time in writing, for depositing the balance of the bid amount. 17. The Successful Bidder shall pay 1% of Sale price towards TDS (out of Sale proceeds) (if applicable) and submit TDS certificate to the Authorised officer and the deposit the entire amount of sale price (after deduction of 1% towards TDS), adjusting the EMD within 15 working days of the acceptance of the offer by the authorized officer, or within such other extended time as deemed fit by the Authorised Officer, falling which the earnest deposit will be forfeited.

18. Municipal / Panchayat Taxes, Electricity dues (if any) and any other authorities dues (if any) has to be paid by the successful bidder before issuance of the sale certificate. Bids shall be made taking into consideration of all the statutory dues pertaining to the property. 19. Sale Certificate will be issued by the Authorised Officer in favour of the successful bidder only upon deposit of entire purchase price / bid amount and furnishing the necessary proof in respect of payment of all taxes / charges.

21. The Authorized officer may postpone / cancel the E-Auction Sale proceedings without assigning any reason whatsoever. In case the E-Auction Sale scheduled is postponed to a later date before 30 days from the scheduled date of sale, it will be displayed on the website of the service provider. 22. The decision of the Authorised Officer is final, binding and unquestionable. 23.All bidders who submitted the bids, shall be deemed to have read and understood the terms and conditions of the E-Auction Sale and be bound by them.

20. Applicable legal charges for conveyance, stamp duty, registration charges and other incidental charges shall be borne by the auction purchaser.

24.For further details and queries, contact Authorised Officer, Capri Global Housing Finance Limited: Ms. Swati Singh Mo. No. 7400445137/ 8960750463 and for further inquiry Ms. Kalpana Chetanwala-7738039346.. 25. This publication is also 30 (Thirty) days notice to the Borrower / Mortgagor / Guarantors of the above said loan account pursuant to rule 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules 2002, about holding of auction sale on the above mentioned date / place.

Special Instructions / Caution: Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Capri Global Housing Finance Limited nor the Service Provider will be responsible for any lapses/failure (Internet failure, Power failure, etc.) on the part of the bidder in such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements / alternatives such as back-up power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.

Sd/- (Authorised Officer) Capri Global Housing Finance Limited Place: Delhi Date : 02-02-2023

RARE ASSET RECONSTRUCTION LIMITED Regd. Office: 104-106, Gala Argos, Nr Harikrupa Tower, Gujarat College Rd, Ahmedabad- 380006 Tel- 079 4009 2295

Sd/- Authorized Officer

PUBLIC NOTICE FOR SALE

E-AUCTION Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) and 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrowers/ Mortgagors and Guarantors that the below described immovable properties mortgaged/charged to Secured Creditor, possession of which has been taken by the Authorised Officer (AO), of Secured Creditor will be sold on "As is, Where Is" "As is, What Is", "Whatever there is" and "without Recourse" basis for recovery of dues from Borrower & Guarantors.

Name of the Borrower &	Particulars of the Property	Possession Status	Outstanding Dues with	Reserve Price	Last Date and time	Date & Time of	
Guarantors	000000000000000000000000000000000000000	5.04.034.035	further interest & cost Rs. in lakh	EMD Rs. in lakh	for submission of EMD	Inspection	
M/s Singh Marble & Stones Guarantors:	All that piece and parcel of the land together with building thereon	Physical	365.71	56	17.02.2023	11:00 AM to 2:00 PM on 11:02:2023	
Mr. Mahesh Singh Tomar Smt. Geeta Tomar	situated at Khasra no. 947, Ahata no. 1/1, Admeasuring 585.27 sq meters and all that piece and parcel of land in respect of the left out area 29 sq. mtrs of Ahata No 1/1, within Khasra No 947 situated at Ahmadpura, Village Abdullapur, District Meerut, (U.P.) - 250001		(as on 31.12.2022)	5.6			
Borrower M/s Vishal Tradelink.	Property Description: Plot no. 21 in Block no. 4, bearing property no.	Constructive	3118.99	249	17.02.2023	2:00 PM	
Guarantors: Mr. Vikas Bafna, Mr. Laxmipat Bafna, Mr. Dinesh Jain Bafna, Smt. Rajyashree Bafna, Devi Vyapar Pvt. Ltd. and Devi Nirman Pvt. Ltd.	4/21 in khasra no. 5127/2610 situated at Basti Reghar in abadi of W.E.A, Karol Bagh, New Delhi – 110005		(as on 31.12.2022)	24.9		to 4:00 PM on 11.02.2023	

Gist of the terms & conditions appearing in Bid Document

* Date & Time of E-Auction: 20.02.2023 (Monday) from 12 PM to 2 PM (with auto extension clause in case of bid in last five minutes before closing).* The Auction will be conducted through online portal: https://sarfaesi.auctiontiger.net, as per the further terms and conditions of the Tender document and as per the procedure set out therein.* The Tender Document can be obtained from https://sarfaesi.auctiontiger.net.*Each Bid has to be supported by a deposit of the EMD as per the terms and conditions detailed in the Tender Document. The successful bidder will be required to deposit 25% of the sale price (less the amount of EMD deposited) at the time of confirmation of sale." The balance amount of the sale price is to be paid within 15 days of the confirmation of the sale or such extended period as may be agreed to by the AO. In case of failure to deposit the balance amount within the prescribed period, the deposited amount shall be forfeited, including EMD.* The Bids may be increased in multiples of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakh Only). * In the event the auction scheduled herein above fails for any reason whatsoever, Rare ARC has the right to sell the secured asset by any methods under the provisions of Rule 8(5) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and SARFAESI Act, 2002* At any stage of the auction, the Authorized officer may accept / reject / modify / cancel the bid / offer or post-pone /cancel auction, without assigning any reason thereof and without any prior notice.* For Queries related to User ID/password contact Rare ARC's service provider: e-Procurement Technologies Ltd., (Auction Tiger), P: 079-68136878, M: 9978591888, email: ramprasad@auctiontiger.net * For any query, Bidder may contact at any working day during office hours: Ms. Shahin Jamali, AO, Rare ARC, Mobile No.-9925189558 or on 079-40092295/97, Email: shahinj@rarearc.com or info@rarearc.com, Website: www.rarearc.com

Statutory 15 Days sale notice under Rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Borrower/Guarantors/Mortgagor are hereby Notified for sale of immovable secured asset towards realization of outstanding dues of Secured Creditor Sd./-, Authorized Officer, Date: 02.02.2023

Place: Ahmedabad

DURGESH MERCHANTS LIMITED

Registered Office: D-328, Basement Floor, Defence Colony, New Delhi-110024 CIN: L65923DL1984PLC248322, E-mail: durgeshmerchants@gmail.com Website: www.durgeshmerchantsltd.com, Telephone: 011-68888824 NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting (EOGM) (01/2022-2023/EGM) of DurgeshMerchants Limited ("the Company") will be held on Wednesday, the 08th day of March, 2023, at 02:00 P.M. at D-328, Basement Floor, Defence Colony, New Delhi-110024 to transact the business as mentioned in the Notice of EGM. The Notice of EOGM shall be sent to all the members

Rare Asset Reconstruction Limited

who have registered their e-mail address with Depositories/RTA/Company and whose names appear in the Register of the Members/ Record of Depositories as on 27th January, 2023 by e-mail only. The EGM shall be conducted after taking all the necessary precautions required in this COVID 19 Pandemic situation. Notice is further given pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that the Company is pleased to provide to its members the facility to cast their vote by electronic means on all resolutions set forth in notice. The Company has engaged the services of M/s. National Securities Depositories Limited (NSDL) to provide the e-voting facility to the shareholders.

- 1. The Company is providing e-Voting facility to the Members of the Company to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the Notice of EGM.
- 2. The e-Voting period commences on Sunday, 05th March, 2023 at 09:00 A.M.
- The e-Voting period ends on Tuesday, 07th March, 2023 at 05:00 P.M.
- Cut-off date: 01st March, 2023.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting in the General Meeting.
- The persons who have acquired shares and become the members of the Company after the dispatch of Notice but before the cut-off date may obtain the login ID and password for availing the facility of e-Voting by following instructions given in the Notice of EGM.
- Members of the Company holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of e-Voting or voting in the General Meeting by way of Ballot Process.
- The e-Voting shall not be permitted beyond the aforesaid date and time.
- A member may participate in the Extra Ordinary General Meeting even after exercising his right to vote through remote e-Voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- 10. In case of any query or grievances connected with the voting by electronic means, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ's) and e-voting manual available at the download section of the http://www.evoting.nsdl.com or may
- Mr. Parveen Sharma, D-153A, Ist Floor, Okhla Industrial Area, Phase- I, New Delhi- 110020; Email: parveen@skylinerta.com, Tel: 011-30857575.
- b) Ms. Aastha Vij, (Company Secretary and Compliance Officer), Durgesh Merchants Limited, D-328, Basement Floor, Defence Colony, New Delhi-110024; Email:durgeshmerchants@gmail.com, Tel: 011-68888824.
- 11. The Company is conducting the EOGM physically, but in compliance with the above provisions and circulars, electronic copies of the Notice of the EOGM has been sent to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/ Depository Participants/ Registrar & Share Transfer Agent ("RTA").
- 12. The notice of EOGM will also be available on the download section of http://www.evoting.nsdl.com and website of the Company at www.durgeshmerchantsltd.com.
- 13. Manner of registering/ updating email addresses:

Date: 01/02/2023

Place: New Delhi

- a. Those Shareholders who are holding equity shares in physical mode who have not registered/ updated their email address, PAN and Banking Details with the Company/ RTA are requested to update above said information be writing to the Company at durgeshmerchants@gmail.com along with copy of signed request letter mentioning the name and address of shareholder, proof of Bank Details and self-attested copy of PAN/ any other identity and address proof.
- b. Those shareholders who are holding shares in dematerialized mode and have not registered/ updated their email address and banking details with their Depository Participant(s), are requested to register/update their email address with the relevant Depository Participant(s).
- 14. Manner of casting vote through e-voting: The Company will be providing remote e-voting facility to all its shareholders to cast their votes on the business as set forth in the Notice of EGM. The login credentials for casting votes through remote e-voting shall be made available to the shareholders through email.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 02nd day of March, 2023 to Wednesday, 08th Day of March, 2023 (both days inclusive) for the purpose of EOGM.

Aastha Vij

For Durgesh Merchants Limited

(Company Secretary and Compliance Officer)

Office Add.: D-328, Basement Floor, Defence Colony, New Delhi-110024 New Delhi

Extract of (Standalone) Audited Financial Results for the guarter ended 31st December, 2022

Notes:

By the order of the board For Advance Steel Tubes Limited

> CÁPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

ऑक्सिलो फिनसर्व प्रा. लिमिटेड कार्यालय संख्या 63, 6ठी मंजिल, कल्पतरु स्ववायर, कोंदिविता रोड, अंधेरी पर्व. मंबई - 400059. महाराष्ट

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कर्जदार/रों ने ऑक्सिलो फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड ''एएफपीएल'' से प्राप्त ऋण सविधाओं के मुलधन और ब्याज के पुनर्भगतान में चुक की है और उक्त ऋण खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया ह। मांग सुचना उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत जारी किया गया था। उक्त मांग सुचना के अलावा,

उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया गया है। कर्जदारों, प्रतिभूतियों, बकाया बकाया, धारा 13(2) के तहत भेजी गयी मांग सूचना तथा उसके तहत दावाकृत राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

कर्जदार, सह-कर्जदार, जमानती का नाम तथा पता एवं ऋण राशि प्रति	भूत आस्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि रु. में
प्रदेश- 202137 314 2. श्रीमती पिंकी देवी मकान नंबर 598, पॉकेट-1, सेक्टर बी-4, पुलिस कॉलोनी, नरेला, मामूरपुर, अलीग उत्तर पश्चिम दिल्ली, नरेला, दिल्ली-110040 3. श्री उमेश कुमार, निवासी उसराह रसूलपुर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202137। 4. श्री अभिनय अत्री	(संपत्ति का विवरण) ा संख्या 147, खसरा संख्या 4, ग्राम उसराह रसूल पुर, –जट्टारी, तहसील-खैर, जिला ाढ़, उत्तर प्रदेश- 202137 में थत भूमि का समस्त भाग। रं:- उत्तरः- राजेंद्री देवी और अन्य के खेत। क्षेणः-देवी प्रसाद का खेत पुसान सिंह का खेत पश्चिमः- रोड	20.01.2023	रु. 1,38,26,178.08 (रुपये एक करोड़ अड़तीस लाख छब्बीस हजार एक सौ अटहत्तर एवं 8 पैसे मात्र) तथा मांग सूचना दिनांक 20.01.2023 से भावी ब्याज

इसलिए आप उपरोक्त कर्जदार/सह–आवेदक से अनुरोध किया जाता है कि इस सूचना/प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज और लागू शुल्कों के साथ–साथ ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भृगतान करें, ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त प्रतिभृतियों को लागु करने के लिए सरफेसी अधिनियम और उसके तहत लागु नियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए विवश होगा। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, कर्जदार/सह-आवेदक को हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त प्रतिभृतियों को हस्तांतरित करने से निषिद्ध किया गया है।

अधिकृत प्राधिकारी (आक्सिलो फिनसर्व प्रा.लिमिटेड)

मांग सूचना

varthana

पंजीकृत कार्यालय : 104-106, गाला अगीस, निकट हरकृपा टॉवर, गुजरात कॉलेज रोड, अहमदाबाद-380006, दूरभाष : 079 4009 2295

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सुचना एतद्वारा जनसाधरण को तथा विशेष रूप में कर्जदार एवं गारंटरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बन्धक/प्रभारित निम्न विवरणित अचल परिसम्पत्तियों का कब्जा प्रतिभत ऋणदाता के प्राधिकत अधिकारी (एओ) द्वारा ग्रहण किया जा चका है तथा कर्जदारों/जमानतियों से बकायों की वसली के लिए परिसम्पत्तियों का अब

कर्जदार तथा जमानतियों के नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की स्थिति	भावी ब्याज तथा लागत सहित बकाया देयताएं रु. लाख में	आरक्षित मूल्य ईएमडी रु. लाख में	करने की	निरीक्षण की तिथि एवं समय
मेसर्स सिंह मार्बल एंड स्टोन्स गारंटरः श्री महेश सिंह तोमर श्रीमती गीता तोमर	अहमदपुरा, ग्राम अब्दुल्लापुर, जिला मेरठ, (यू.पी.) -25001 में स्थित खसरा नं. 947, अहाता नं. 1/1, माप 585.27 वर्ग मीटर पर स्थित भूमि तथा भवन का समस्त भाग तथा खसरा नं 947, अहाता नं 1/1, माप 29 वर्ग मीटर के बचे हुए क्षेत्र के संबंध में भूमि का समस्त भाग	भौतिक	365.71 (31.12.2022 तक)	56	17.02.2023	11.02.202 3 को 11 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप.
कर्जदार मैसर्स विशाल ट्रेडलिंक गारंटरः श्री विकास बाफना, श्री लक्ष्मीपत बाफना, श्री दिनेश जैन बाफना, श्रीमती राज्यश्री बाफना, देवी व्यापार प्रा. लिमिटेड और देवी निर्माण प्रा. लिमिटेड	सम्पत्ति का विवरण : , प्लॉट नं. 21, ब्लॉक नं. 4, संख्या 4/21, खसरा संख्या 5127/2610 में,बस्ती रैगड़, आबादी डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली – 110005 में स्थित।	रचनात्मक	3118.99 (31.12.2022 तक)	249	17.02.2023	11.02.202 3 को 2 बजे अप. से 4 बजे अप.

बोली दस्तावेज में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का तात्पर्य

*ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 20.02.2023 (सोमवार) को 12 बजे अप. से लेकर के 2 बजे अप. तक (बंद होने से पूर्व अंतिम पांच मिनटों में बोली होने की स्थिति में स्वतः विस्तार उप-वाक्य के साथ)। *नीलामी ऑनलाइन पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से निविदा दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। * निविदा दस्तावेज https://sarfaesi.auctiontiger.net से प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक बोली निवदा दस्तावेज में वर्णित नियमों और शर्तों के अनसार ईएमडी जमा करके समर्थित होना चाहिए। सफल बोलीदाता को बिक्री मुल्य का 25% जमा करना होगा (बिक्री की पृष्टि के समय जमा की गई ईएमडी की राशि घटाकर)। * बिक्री मुल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की पृष्टि के 15 दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि जैसा कि एओ द्वारा सहमति दी जाए, किया जाना है। निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि जमा करने में विफलता के मामले में, जमा राशि को ईएमडी सहित जब्त कर लिया जाएगा। * बोलियां रु. 5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ाई जा सकती हैं, * यहां ऊपर निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विफल होने की स्थित में, रेयर एआरसी को प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 और सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(5) के प्रावधानों के तहत किसी भी तरीके से प्रतिभृत संपत्ति को बेचने का अधिकार है। *नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना कोई पूर्व सूचना दिए, प्रस्तावित बोली को रद/निरस्त/स्थगित/आस्थगित/समाप्त कर सकता है। *यूजर आईडी तथा पासवर्ड से संबंधित प्रश्नों के लिए रेयर एआरसी सेवा प्रदाताः ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (ऑक्शन टाइगर), दूरभाषः 079-68136878, मी.: 9978591888, ईमेलः ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क किया जा सकता है। *िकसी भी प्रश्न के लिए, बोलीदाता कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस में सुश्री शाहीन जमाली, एओ, रेयर एआरसी, मोबाइल नंबरः 9925189558 या 079-40092295/97, ई-मेल shahinj@rarearc.com या info@rarearc.com, वेबसाइटः www.rarearc.com से संपर्क कर सकता है।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को एतद्वारा प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली के लिए अचल प्रतिभूत संपत्ति की बिक्री के लिए अधिसूचित

किया जाता है

तिथि : 02.02.2023 स्थानः अहमदाबाद

रेयर एसेट रीकंस्ट्रक्शन लिमिटेड

दुर्गेश मरचैन्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: डी-238, बेसमेन्ट फ्लोर, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली- 110024,

CIN: L65923DL1984PLC248322, Email ID: durgeshmerchants@gmail.com, Website: www.durgeshmerchantsltd.com, Telephone: 011-68888824

असाधारण सामान्य बैठक सूचना

एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि दुर्गेश मरचैन्ट्स लिमिटेड ("कम्पनी") की प्रथम असाधारण सामान्य बैठक (ईओजीएम) (01/2022-2023) बुधवार, 08 मार्च, 2023 को दोपहर 2:00 बजे डी-238, बेसमेन्ट फ्लोर, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली- 110024 में ईजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय निष्पादन हेतू आयोजित की जायेगी। ईओजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों जिनके ई-मेल पते डिपाजटरीज/आटीए/कम्पनी एवं जिन सदस्यों के नाम सदस्यों की पंजिका/डिपाजटरीज के रिकार्ड में 27 जनवरी. 2023 को अंकित को केवल ई–मेल द्वारा भेज दी गई

हैं। ईजीएम कोविड-19 के महामारी की अवस्था में आवश्यक सावधानी बरतते हुए आयोजित की जायेगी। कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 साथ में पठित (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमन, 2014 के नियम 20 जैसा कि संशोधित के अनुसरण एवं सेबी (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 में पुनः सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी अपने सदस्यों को इलेट्रानिक माध्यम द्वारा सूचना में वर्णित प्रस्ताओं पर वोट देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने अपने

1. कम्पनी अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि वे अपना वोट इलेट्रानिकली ईजीएम की सूचना मे वर्णित मदों पर दे सकें।

्रशेयरधारकों को ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरीटीज डिपाजटरीज लिमिटेड की सेवायें ली हैं।

- 2. ई-वोटिंग अवधि रविवार, 05 मार्च, 2023 को प्रातः 09:00 बजे प्रारम्भ होगी।
- 3. ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 07 मार्च, 2023 को को सायं 05:00 बजे समाप्त होगी।
- कट ऑफ तिथिः 01 मार्च, 2023.
- एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों की पंजिका अथवा डिपाटरीज द्वारा बनाये गई लाभदाई स्वामी की पंजिका में कट—ऑफ तिथि को अंकित है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ साधारण बैठक में वोटिंग के हकदार होंगे। जिस व्यक्ति ने सचना को भेजने के बाद शेयर्स अर्जित किये हों एवं कम्पनी का सदस्य बना हो लेकिन कट-ऑफ तिथि से पहले.
- ई-वाटिंग की सुविधा हेत् लॉग इन आईडी एवं पास वर्ड प्राप्त करने के लिए ईजीएम की सूचना में दिये गये अनुदेशों का पालन करें। 7. कट-ऑफ तिथि को कम्पनी के भौतिक रूप में धारित सदस्य अथवा डिमैटरीलाइज प्रपत्र में धारित सदस्य ई-वोटिंग की सुविधा अथवा साधारण बैठक में मतपत्र द्वारा मतदान के हकदार होंगे।
- उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त ई—वोटिंग की अनुमति नही दी जायेगी।
- एक सदस्य रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के बाद असाधारण सामान्य बैठक में भाग ले सकता है लेकिन फिर से बैठक में वोट देने की अनमति नहीं होगी।
- 10. इलेक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की पृछताछ अथवा शिकायत के लिए सदस्य लगातार प्रश्न पृछने (एफएक्यूज) एवं ई—वोटिंग के डाऊनलोड भाग http://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध गाइड को संदर्भित कर सकते है अथवा
 - क) श्री प्रवीन शर्मा डी—-153, प्रथम मंजिल, ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस- I, नई दिल्ली 110 020 ई—मेल: parveen@skylinerta.com, दरभाष: 011-30857575. ख) सुश्री आस्था विज, (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी), दुर्गेश मरचैन्ट्स लिमिटेड, डी-238, बेसमेन्ट फ्लोर, डिफेन्स कालोनी,
- नई दिल्ली- 110024, ; ई-मेल: durgeshmerchants@gmail.com, दूरभाष: 011-68888824. 11. कम्पनी ईओजीएम को भौतिक रूप में संचालित कर रही है लेकिन उपरोक्त प्रावधानों एवं परिपत्र के अनुपालन में प्रथमं ईओजीएम की
- सूचना की इलेक्ट्रानिक प्रतियाँ सभी कम्पनी के सदस्यों जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉटरीज भागीदार/रजिस्ट्रार एण्ड शेयर्स हस्तांतरण एजेन्ट ("आरटीए") के पास अंकित थे. को भेज दी गई हैं। 12. ईओजीएम की सूचना साथ में डाऊनलोड भाग http://www.evoting.nsdl.com एवं कम्पनी की वेबसाइट www.durgeshmerchantsltd.com
- वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 13. ईमेल पते पंजीकरण/अपडेटिंग कराने का तरीका:
 - क) जो शेयरधारक भौतिक माध्यम में इक्वीटी शेयर्स धारित जिन्होने अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेटेड नहीं कराये हैं, उनसे आग्रह है कि अपने ईमेल पते. पैन एवं बेकिंग विवरण कम्पनी/आरटीए के पास उपरोक्त जानकारी लिखित में कम्पनी को durgeshmerchants@gmail.com पर साथ में हस्ताक्षरित आग्रह पत्र नाम व शेयरधारक का पते का उल्लेख कर, बैंक विवरण एवं स्वअभिप्रमाणित पैन प्रतिलिपि/अन्य पते का कोई प्रमाण प्रस्तुत करें।
 - जो शेयरधारक डिमैटरीलाइज माध्यम में शेयर्स धारित करते हो एवं अपना ईमेल पते एवं बैकिंग विवरण डिपॉटरीज के पास पंजीकृत/अपडेटेड नहीं कराये हैं, से आग्रह है कि अपने ईमेल पते एवं बैकिंग विवरण प्रासांगिक डिपॉटरीज भागीदारों के पास पंजीकृत/अपडेट करा लें।
- 14. ई-वोटिंग द्वारा वोट देने का तरीका : कम्पनी अपने सभी शेयरधारकों को ईजीएम की सचना में वर्णित व्यवसाय में वोट देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करायेगी। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए लागइन साख शेयरधारकों को मेल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं सेबी (सूची दायत्वों एण्ड प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन, 2015 के नियमन 42 प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की पंजिका एवं शेयर हस्तांतरण किताबें वीरवार, 02 मार्च, 2023 से बुधवार, 08 मार्च, 2023 तक (दोनों दिवस शामिल कर) ईओजीएम के उदेश्य हेत् बंद रहेंगी। कृते दुर्गेश मरचैन्ट्स लिमिटेड

हस्ता०/-

आस्था विज

1.) मूलः

2.) तरलः

स्थानः नोएडा

(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) कार्यालय का पता:- डी-328, बेसमेन्ट फ्लोर, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली- 110024

वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

(पूर्व में मैसर्स थिरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लि. के रूप में अभिज्ञात) पंजी. कार्यालयः सं. 5बीसी—110, वरासिद्धि, ततीय तल, आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, ततीय खंड, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंगलोर–560043 वेबसाइटः www.varthana.com, ई—मेलः care@varthana.com, दूरभाष सं: 080–68455777, शाखा कार्यालयः सं 109, भू तल, टैगोर विला चकराता रोड, देहरादून 248001

अचल संपत्ति के विक्रयार्थ नीलामी की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्त-अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्ति के विक्रयार्थ नीलामी विक्रय सूचना। एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) औ बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित रखी गई निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका अधिग्रहण मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लि., देहरादून (पूर्व में थिरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लि. के रूप में अभिज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है उसका अब दिनांक 10—03—2023 (शक्रवार) को अप. 1.00 से अप. 2.00 बजे के मध्य ''जैसी है जहां है''. ''जैसी है जो है' तथा ''वहां जो कछ भी है' आधार पर विक्रय किया जायेगा। यह विक्रय निम्न वर्णित ऋण खाता की वसूली हेतु किया जाएगा। उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/प्रतिभूत परिसंपत्तियों / बकाया राशियों / आरक्षित मुल्य / नीलामी तिथि एवं समय, धराज और बोली वृद्धि राशि के विवरण निम्नानुसार वर्णित हैं:

उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं के नाम : 1. मैसर्स मदर लेंड जूनियर हाई स्कूल, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अभिवेदित, 2. मैसर्स मदर लेंड पब्लिक स्कूल पंथवपुरा समिति, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अभिवेदित, 3. श्री अजय कुमार पुत्र सुखबीर सिंह, 4. श्री अनिल कुमार पुत्र सुखबीर सिंह।

ऋण खाता संख्यायें : S19DHD-DHD-009528, U21DHD-DHD-017102,U20DHD-DHD-015018 एवं U21DHD-DHD-018625 कुल बकाया राशि के विवरण रूपये में : दिनांक 30-01-2023 के अनुसार रु. 35,39,653 /- (रुपये पैंतिस लाख उनतालिस हजार छह सौ तिरेपन

संपूर्ण राशि की वसूली होने तक, ब्याज की भावी अनुबंधित संविदागत दर और विधिक लागतों / शुल्कों के साथ। अचल संपत्ति के विवरण : संपत्ति खाता सं. 00022 के समस्त वह भाग तथा अंश जो खसरा नं. 158/15 के भाग पर, कुल भूमि क्षेत्र का अधिमापन (1370 हेक्टेयर, ग्राम पंथुपुरा, परगना झिंझाना, तहसील कैराना और जिला शामली उत्तर प्रदेश में स्थित तथा इस प्रकार परिसीमित हैः पूर्व– जिला रूट

पश्चिम- विक्रेता की अतिरिक्त भूमि, उत्तर- फतेह सिंह की चुक, दक्षिण- फतेह सिंह की चुक। उपरोक्त संपत्ति का आरक्षित मूल्य रु. 1,49,06,680 / – (रुपये एक करोड़ उनचास लाख छह हजार छह सौ अस्सी मात्र) है तथा घरोहर राशि जम

(आरक्षित मूल्य की 10% धराज) रु. 14,90,668 / – होगी। ज्ञात भारग्रस्तताएं, यदि कोई हों : शुन्य

इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी धराज की राशि एवं बोली राशि को केवाईसी प्रलेखों (पेन कार्ड एवं आधार/मतदाता पहचान-पत्र/चालन अनुज्ञप्ति

ड्राइविंग लाइसेंस) और ''मैसर्स वर्धना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड'' के पक्ष में देहरादून में भुगतानयोग्य किसी अनुसूचित बैंक पर आहरित डिमांर ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर के माध्यम से रु. 1,000 / – के अप्रतिदेय निविदा शुल्क के साथ 09-03-2023 (गुरुवार) को साय 5.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व जमा / प्रस्तुत करना चाहिए।

नीलामी का आयोजन यहां पर होगाः सं. 109, भू तल, टैगोर विला, चकराता रोड, देहरादून 248001 पर, दिनांक बजे से अप. 2.00 बजे के बीच।

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया कंपनी की वेबसाइट अर्थात्: www.varthana.com में उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण कर प्रस्तावित बोलीदातागण अन्य विवरणों / जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी श्री मित्तिन कक्कड़ – फोन नंबर 8685050505, 7827926395 और श्री नागेंद्र प्रताप सिंह— फोन नंबर 9837911112 से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 02-02-2023, स्थान : बैंगलोर प्राधिकृत अधिकारी, वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

Aro granite industries Itd.

(100% Export Oriented Unit) CIN: L74899DL1988PLC031510

Regd. Office: 1001, 10th Floor, DLF Tower A, Jasola, New Delhi - 110025 Ph.: 011-41686169, Fax: 011-26941984, Email: investorgrievance@arotile.com, Website: www.arotile.com

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND NINE-MONTHS PERIOD ENDED 31ST DECEMBER 2022 (Rs. in lacs)

	Υ'	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended
SI.	Particulars	31.12.2022		31.12.2021
No	99	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from operations	3,448.63	22,610.14	5,882.56
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary items)	(679.09)	1,077.57	104.68
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(679.09)	1,077.57	104.68
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(714.12)	890.59	113.32
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(718.96)	901.61	118.97
6	Paid up Equity Share Capital	1,530.00	1,530.00	1,530.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		18,112.19	
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic:	(4.70)	5.89	0.78
	2. Diluted:	(4.70)	5.89	0.78

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial results filled with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s), www.bseindia.com, and www.nseindia.com and the Company's website

For & on behalf of the Board

Sunil Kumar Arora

Managing Director

DIN; 00150668

Place: HOSUR Date: 01.02.2023

> लिबर्टी शूज़ लिमिटेड LIBERTY

सीआईएन : L19201HR1986PLC033185 पंजीकृत कार्यालयः लिबर्टीपुरम, 13वॉ माइलस्टोन, जी.टी. करनाल रोड, कुटेल, पी.ओ., बस्तारा, जिला – करनाल – 132114, हरियाणा कॉर्पोरेट ऑफिस: भूतल, टावॅर-ए, डीएलएफ बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-2, गुरुग्राम- 122002, हरियाणा

दुरभाष : +(91)-0124-4616200 फैक्सः +(91)-0124-4616222 ई-मेल : investorcare@libertyshoes.com, वेबसाइट : www.libertyshoes.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 29 तथा 47 के अनुपालन में एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, दिनांक 13 फरवरी, 2023 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही कम्पनी के 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही तथा नौ माह के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा तथा उसे मंजूरी प्रदान की जाएगी। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.libertyshoes.com), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते लिबर्टी शुज लिमिटेड

हस्ताक्षर/-

स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा तिथिः बुधवार, 1 फरवरी, 2023

सी एस मुनीष काकरा मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कम्पनी सचिव

31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

पंजी. कार्यालयः ४०३, प्रभात किरण, 17, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली-110008, टेली. नं: 011-45142374 कॉर्पोरेट कार्यालयः कारनाउस्टिन बिल्डिंग, प्लॉट नं. 1, 9 वां. तल, सेक्टर 16ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301

	स्टैंडएलॉन (रु. '000)				
क्रम. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही दिसम्बर 31, 2022	समाप्त नौमाही दिसम्बर 31, 2022	समाप्त तिमाही दिसम्बर 31, 2021	
1.	परिचालनों से कुल आय	1,10,242.99	3,26,294.29	92,543.08	
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	27,656.74	65,249.80	20,517.83	
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	27,656.74	65,249.80	15,517.83	
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	22,659.84	50,957.27	11,087.33	
5.	अविव हेतु कुल व्यापक आय (अविव हेतु (कर के बाद) लाम / (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	22,489.27	50,910.75	11,395.99	
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	2,19,698	2,19,698	2,19,508	
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)*		8	1,41,502.24	
8.	आय प्रति शेयर				
2000	1.) मूलः	1.03	2.32	0.52	
	a) नग्नः	1.01	2.27	0.51	

6.	इक्विटी शेयर पूंजी	2,19,698	2,19,698	2,19,508
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)*			1,41,502.24
8.	आय प्रति शेयर			
00,000	1.) मूलः	1.03	2.32	0.52
	2.) तरलः	1.01	2.27	0.51
	स्र	भेकित		(₹. '000)
क्रम. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही दिसम्बर 31, 2022	समाप्त नौमाही दिसम्बर 31, 2022	समाप्त तिमाही दिसम्बर 31, 2021
1.	परिचालनों से कुल आय	1,84,661.69	5,48,478.50	1,46,489.25
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(64,930.86)	(1,64,246.94)	(46,999.63)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(64,930.86)	(1,64,246.94)	(51,999.63)
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट एवं / अथवा असाधारण मदों के बाद)	(69,926.75)	(1,78,540.45)	(56,430.63)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाम / (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	(70,194.05)	(1,82,043.42)	(58,552.79)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	2,19,698	2,19,698	2,19,508
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)*			4,31,034.51
8.	आय प्रति शेयर	-		
7.3	N .	1000941009	100000000	

टिप्पणीः क) उपरोक्त भारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत बीएसई लिमिटेड में दाखिल की गई 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामें का सार है। ख) तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.quintdigitalmedia.com) पर भी उपलब्ध है। ग) उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा विधियत समीक्षा की गई तथा 31 जनवरी, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से

(3.20)

(8.29)

पर्षोत्तम दास अग्रवाल Place: Delhi DIN: 00063017

(2.67)

(2.67)

REF No. YBL/ENF/AGRA/SP/2022-2023/02

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय : येस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे संताकुज (ईस्ट), मुम्बई 400055, फोन: +91 (22) 5091 9800 / +91 (22) 6507 9800 YES BANK Fax: +91 (22) 2619 2866, ई मेलः communications@yesbank.in, वेबसाईट: www.yesbank.in CIN: L65190MH2003PLC143249

(नियम 8(1)) कब्जे की सूचना

जबकि, अघोहस्ताक्षरकर्ता येस बँक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का

प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का संख्याक 54) (अधिनियम) की घारा 13(12) और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) का संपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एक मांग सूचना दिनांक 15 नवम्बर 2022 को निर्गमित की जिसमें मांग करते हुए ऋणी (1) एनके एक्सपोर्टेस इंडिया लिमिटेड ('ऋणी और बंधककर्ता') जरिये इसके निदेशकों, (2) श्री अंकित जैन ('निदेशक और जमानतदार') पुत्र श्री संजय जैन, (3) श्री आशीष जैन ('निदेशक और जमानतदार') पुत्र श्री संजय जैन, (4) श्री संजय जैन 'निदेशक और जमानतदार') पुत्र श्री निर्मल कुमार जैन, (5) श्रीमती बसंती देवी जैन ('जमानतदार') पत्नी श्री जय प्रकाश जैन, (६) श्रीमती रेणु जैन ('जमानतदार') पत्नी श्री संजय जैन, (7) श्रीमती रुचिरा जैन ('जमानतदार') पत्नी श्री आशीष जैन को सुचना-पत्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर रूपये 16,38.31,800.20 (रूपये सोलह करोड अडतीस लाख इकतीस हजार आठ सौ एवं बीस पैसे मात्र) दिनांक 10 नवम्बर, 2022 तक तथा दिनांक 11 नवम्बर, 2022 से प्रभावी आगे के ब्याज तथा अन्य खर्चों के साथ की राशि को लौटाने के लिये कहा गया था। ऋणी तथा जमानतदारों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी, जमानतदारों और बंधककर्ता तथा जनसामान्य को को एतद द्वारा सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतरिमन नीचे र्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 30 जनवरी 2023** को ग्रहण कर लिया हैं।

ऋणी. जमानतदारों तथा बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार येस बैंक लिमिटेड रूपये 16.38.31.800.20 (रूपये सोलंह करोड अडतीस लाख इकतीस हजार आठ सौ एवं बीस पैसे मात्र) दिनांक 10 नवम्बर, 2022 तक व आगे के ब्याज एवं लागतों के अध्यधीन होगा। ऋणियां का ध्यान प्रतिभत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकष्ट किया जाता है।

अचल मध्यत्नियों का विवरण

	वन्धक सम्पत्ति का विवस्ण सीमाएं वंधककर्ता श्रीग्रोगिक भूमि एवं भवन जो प्लॉट नं. सी-94, सी- पूर्व- प्लॉट नं. सी-95 एवं					
i	बन्धक सम्पत्ति का विवरण	सीमाएं	वंधककर्ता			
	औद्योगिक भूमि एवं भवन जो प्लॉट नं. सी-94, सी- 134 से सी-138, औद्योगिक क्षेत्र ई.पी.आई.पी., सिकन्दरा, लाखनपुर गांव, आगरा, उत्तरप्रदेश में स्थित।	सी-133	एनके एक्सपोर्ट्स लिमिटेड			

दिनांक: 30.01.2023 हस्ताक्षर/- वास्ते येस बैंक लिमिटेड विपिन चौधरी (वरिष्ठ उपाध्यक्ष) स्थानः आगरा प्राधिकृत अधिकारी

माग सूचना

इंडेलवीज एसेट रीकेस्टक्शन कम्पनी लिमिटेड CIN:U67100MH2007PLC174759 रिटेल सेन्टर एवं पंजीकृत कार्यालय : ईडेलवीज हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई 400098.

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत अधोहस्ताक्षरी प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण के तहत ईडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (''ईएआरसी'') का अधिकृत प्राधिकारी है। प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियं के उपयोग में अधिकृत प्राधिकारी ने निम्नलिखित कर्जदार(रों) को उनके लिए निर्गत जो नीचे भी दिया गया है सम्बद्ध माँग सुचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सुचना निर्गत की है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में, एतद्वारा एक बार पुनः कर्जदारों को कथित माँग सुचना में नीचे लिखित तिथियों से भगतान की तिथि तथा/अथवा कथित कर्जदार(रों) द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखनों, यदि कोई हो, के साथ पठित कर्ज वे अनुबन्ध के तहत वसूलीकृत, देय तिथि तक भावी ब्याज सहित यहाँ नीचे उल्लिखित राशि को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर ईएआरसी को अदा करने के लिए कहा जाता है। कर्ज के बकाया पुनर्भगतान हेत प्रतिभृति के रूप में क्रमशः कथित कर्जदार(रों) द्वारा ईएआरसी के पास निम्नलिखित आस्ति गिरवी रखी गयी है।

क्र.	कर्जदार(रॉ)/सह-कर्जदार(रॉ) का	माग सूचना को	ट्रस्ट एवं एसाइनर
सं.	नाम ऋण खाता संख्या	तिथि तथा राशि	का विवरण
1.	शिशुपाल बघेल (ऋणधारक)	17.01.2023 एवं रु. 15,66,555.38	ईएआरसी ट्रस्ट
H	के साथ चन्द्र कान्ता (सह-ऋणधारक)	(रु. पन्द्रह लाख छियासठ हजार पांच	एससी-424 एवं
H	ऋण खाता सं. PR00421994	सौ पचपन एवं पैसे अड़तीस मात्र)	एसबीएफसी
		5.1.2023	
सम्प	ति का विवरण : सम्पत्ति प्लॉट नं. 30-ा	। र, 30-बी एवं 30-सी, अंजानी विहार,	नगला किशनलाल के

निकट, ख. नं. 2173, मौजा नराईच, एतमादपर, आगरा, उत्तर प्रदेश का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहदी उत्तर 15' चौड़ा रास्ता, दक्षिण : अन्य : पूर्व : प्लॉट नं. 29, पश्चिम : प्लॉट नं. 31

यदि कर्जदार उपर्युक्त के अनुसार ईएआरसी को भृगतान करने में असफल रहते हैं तो ईएआरसी लागतों तथा परिणामों के प्रति कथित कर्जदार(रों) के सम्पूर्ण जोखिम पर अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। कर्जदारों को उपर्युक्त आस्तियों को विक्रय, पट्टे अथवा अन्य किसी माध्यम से ईएआरसी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके तहत निर्मित नियमों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन में सहयोग करता है वह अधिनियम के तहत प्रावधानित के अनुसार जेल जाने तथा/अथवा जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थान : दिल्ली

तिथि : 01.02.2023

कृते ईडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

⊕ Edelweiss

HG INDUSTRIES LIMITED

(Formerly Himalaya Granites Limited) Regd.Office: 203, 2nd Floor, West Wing Worldmark 1, Aerocity, IGI Airport, Hospitality District, New Delhi - 110037 CIN: L20100DL1987PLC408363, Telephone: +91-11-42791399,

Website: www.hgl.co.in , Email: investors@hgl.co.in

Financial Results for the Quarter and Nine Months

Ended December 31, 2022 (₹ in lacs) Quarter Ended ine Months Ended Year Ended

Particulars 31.12.2022 31.12.2021 31,12,2022 31.03.2022 No. (Un-audited) (Un-audited) (Un-audited) (Audited) Total income from Operations 5.10 35.70 Net Profit/(Loss) for the period (25.09)(30.20)(68.74)5.63 (before Tax) Net Profit/(Loss) for the period 2.65 (19.97)(30.20)(66.62)(after Tax) Total Comprehensive Income (24.46)(30.20)(71.15)(2.02)5. Equity Share Capital 231,68 231.68 231.68 231.68 Reserves (excluding Revaluation) (60.86)Reserve) Earnings Per Share | i. Basic (₹): $(0.65)^*$ (1.44) $(0.43)^*$ (0.65)* 0.06 (of ₹ 5/- each) ii. Diluted (₹): $(1.44)^*$

Not annualised

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly/Annual Financial Results are available on the website of BSE Limited at
- 'www.bseindia.com' and also at the website of the Company at 'www.hgl.co.in'. The Company does not have any Exceptional and Extraordinary item to report during the above periods.

Place: New Delhi Date: February 01, 2023

By order of the Board Ramesh Kumar Haritwal Managing Director & CEO [DIN: 01486666]

(Amount in Crore)

ADVANCE STEEL TUBES LIMITED CIN: L24231UP1978PLC004583

Regd. Office: Regd. Off: 45/3 INDUSTRIAL AREA, SITE-IV, SAHIBABAD, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH, 201020 E-mail: info@advance.co.in Website: www.advance.co.in Extract of (Standalone) Audited Financial Results for the guarter ended 31st December, 2022

Particulars	Quarter ending 31.12.2022	Year ended 31.03.2022 (Audited)	Corresponding 3 months ended in the previous year 31.12.2021
Total Income from Operations	41.49	106.79	25.68
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, exceptional and/ or extraordinary items	1.23	(1.18)	0.86
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items		6.15	8.15
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items	1.46	6.15	8.15
Total comprehensive income for the period [comprising profit /(loss for the period (after tax and other comprehensive income (after tax)]	1,46	4.91	6.67
Paid up equity share capital	0.74	0.74	0.74
Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)		93.87	
Earnings per share of Rs. 10/- each for continuing and discontinued operations 1) Basic 2) Diluted	19.73	66.44	90.13
	Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, exceptional and/ or extraordinary items Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss for the period [comprising profit / (loss for the period (after tax and other comprehensive income (after tax)] Paid up equity share capital Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year) Earnings per share of Rs. 10/- each for continuing and discontinued operations 1) Basic	Total Income from Operations 41.49 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, exceptional and/ or extraordinary items 1.23 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items 1.23 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items 1.46 Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss for the period (after tax and other comprehensive income (after tax)] 1.46 Paid up equity share capital 0.74 Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year) - Earnings per share of Rs. 10/- each for continuing and discontinued operations 1) Basic	Particulars ending 31.12.2022 (Audited) Total Income from Operations 41.49 106.79 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, exceptional and/ or extraordinary items 1.23 (1.18) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items 1.23 6.15 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items 1.46 6.15 Total comprehensive income for the period (after tax and other comprehensive income (after tax)) 1.46 4.91 Paid up equity share capital 0.74 0.74 Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year) - 93.87 Earnings per share of Rs. 10/- each for continuing and discontinued operations 1) Basic

Notes: a) The Audited standalone financial results of Advance Steel Tubes Limited have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 31st January 2023 and have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company.

 The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & other disclosure requirements) regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the stock exchange website and on the company's website www.advance.co.in E-Mail:info@advance.co.in

> By the order of the board For Advance Steel Tubes Limited

D. N. Agarwal (Managing Director)

Date : 31.01.2023 DIN:00586794

www.readwhere.com

तिथि: 01/02/2023

स्थानः नई दिल्ली

तिथि : 02.02.2023 स्थान : अलीगढ़, उत्तर प्रदेश

बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

''जैसी हैं जहां हैं'', ''जैसी हैं जो हैं'', ''वहां जो कुछ हैं'' और ''उपचार रहित'' आधार पर विक्रय किया जाएगा।

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

ह./-, अधिकृत अधिकारी,

क्विन्ट डिजीटल मीडिया लिमिटेड

CIN: L74110DL1985PLC373314 टेली. नं: 0120-4751818 वेबसाईट: www.quintdigitalmedia.com / ईमेल: cs@thequint.com

41		144144 31, 2022	154144 31, 2022	1941-44 31, 2021	
1.	परिचालनों से कुल आय	1,10,242.99	3,26,294.29	92,543.08	
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	27,656.74	65,249.80	20,517.83	
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	27,656.74	65,249.80	15,517.83	
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	22,659.84	50,957.27	11,087.33	
5.	अववि हेतु कुल व्यापक आय (अविच हेतु (कर के बाद) लाग / (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	22,489.27	50,910.75	11,395.99	
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	2,19,698	2,19,698	2,19,508	
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)*		1,41,50		
8.	आय प्रति शेयर		1		
20,000	1.) मूलः	1.03	2.32	0.52	
	2.) तरलः	1.01	2.27	0.51	
	H1	नेकित		(₹. '000)	
क्रम. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही दिसम्बर 31, 2022	समाप्त नौमाही दिसम्बर 31, 2022	समाप्त तिमाही दिसम्बर 31, 2021	
1.	परिचालनों से कुल आय	1,84,661.69	5,48,478.50	1,46,489.25	
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(64,930.86)	(1,64,246.94)	(46,999.63)	
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(64,930.86)	(1,64,246.94)	(51,999.63)	

*31 मार्च, 2022 तक। हस्ता./ तिथि: 31 जनवरी, 2023